

RBI Assistant Mains Reasoning Daily Mock

Direction (1-5): निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए.

छह व्यक्ति P, Q, R, S, T और U, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। इनमें से सभी की आयु अलग-अलग है तथा ये सभी कारों के विभिन्न ब्रांड अर्थात्- हुंडई, होंडा, टोयोटा, फोर्ड, रेनॉल्ट, और निसान पसंद करते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हों। आयु में सबसे छोटा व्यक्ति 33 वर्ष का है।

P उस व्यक्ति के ठीक बाएं स्थान पर बैठा है, जो निसान पसंद करने वाले व्यक्ति के विपरीत बैठा है। निसान पसंद करने वाला व्यक्ति U का निकटतम पड़ोसी नहीं है। R, आयु में दूसरे सबसे छोटे व्यक्ति से 5 वर्ष बड़ा है। R निसान पसंद वाले व्यक्ति के ठीक बाएं स्थान पर बैठा है। R, आयु में चौथे सबसे बड़े व्यक्ति से केवल 3 वर्ष बड़ा है। Q जो आयु में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति है, उसे फोर्ड पसंद नहीं है। फोर्ड पसंद करने वाला व्यक्ति S के विपरीत बैठा है। Q, S का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है तथा 55 वर्षीय व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। हुंडई पसंद करने वाला व्यक्ति आयु में सबसे बड़ा नहीं है। R जो आयु में चौथा सबसे छोटा व्यक्ति है, वह रेनॉल्ट पसंद करने वाले व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। T आयु में सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है। आयु में तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति 37 वर्ष का है। होंडा पसंद करने वाला व्यक्ति, 52 वर्षीय व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। T, U से आयु में छोटा है।

Q1. निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को निसान पसंद है?

- (a) T
- (b) P
- (c) R
- (d) Q
- (e) S

Q2. निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आयु 40 वर्ष है?

- (a) हुंडई पसंद करने वाला व्यक्ति
- (b) S
- (c) फोर्ड पसंद करने वाला व्यक्ति
- (d) U
- (e) P

Q3. निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति, T के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है?

- (a) टोयोटा पसंद करने वाला व्यक्ति

(b) 37 वर्षीय व्यक्ति

(c) S

(d) R

(e) निसान पसंद करने वाला व्यक्ति

Q4. निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रेनॉल्ट पसंद है?

(a) T

(b) U

(c) R

(d) Q

(e) S

Q5. निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति, आयु में सबसे बड़े व्यक्ति के ठीक बाएं स्थान पर बैठा है?

(a) Q

(b) R

(c) T

(d) U

(e) S

Directions (6-10): निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए.

P, Q, R, S, T, U और V सात खिलाड़ी हैं जो एक ही टीम के लिए खेलते हैं. एक मैच की बैठक में, वे सभी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं. साथ ही प्रत्येक खिलाड़ी को अपना प्रशिक्षण पूरा करना है, जो उन्हें सौंपा गया है. कोई भी दो खिलाड़ी साथ में प्रशिक्षण पूरा नहीं कर सकते और कोई भी दो आसन्न खिलाड़ी एकदूसरे के ठीक बाद अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं करते हैं.

P, Q से ठीक पहले अपना प्रशिक्षण पूरा करता है. R, S के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है लेकिन वह अपना प्रशिक्षण S के बाद पूरा करता है. Q, V के ठीक बाएं बैठा है. T उस खिलाड़ी के ठीक बाएं बैठा है, जो दो खिलाड़ियों के पहले अपना प्रशिक्षण पूरा करता है. U, Q के ठीक बाद अपना प्रशिक्षण पूरा करता है लेकिन R के बाद नहीं. V के पहले अपना प्रशिक्षण पूरा करने वाली खिलाड़ियों की संख्या, V के बाद अपना प्रशिक्षण पूरा करने वाली खिलाड़ियों की संख्या के समान है. U उस व्यक्ति के दायें से दूसरे स्थान पर बैठा है जो सबसे पहले अपना प्रशिक्षण पूरा करता है.

Q6. Q के दाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है?

(a) U

General Awareness

Based on GA POWER CAPSULE

RBI ASSISTANT MAINS

 **bankersadda.com**

2500 + Questions

Current Affairs | Banking | Static

- (b)R
- (c)P
- (d)V
- (e) इनमें से कोई नहीं

Q7. P के पहले कितने खिलाड़ी अपना प्रशिक्षण पूरा करते हैं?

- (a) 1
- (b) 5
- (c) 4
- (d) 2
- (e) कोई नहीं

Q8. बिंदु S से निम्नलिखित में से कौन-सा क्रम घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत बैठने का है(S शामिल करते हुए)?

- (a) S, Q, P, R, U, V, T
- (b) S, U, P, R, T, V, Q
- (c) S, Q, V, P, R, U, T
- (d) S, T, Q, V, R, P, U
- (e) इनमें से कोई नहीं

Q9. निम्नलिखित में से कौन R के ठीक बाद अपना प्रशिक्षण पूरा करता है?

- (a) Q
- (b) V
- (c) P
- (d) S
- (e) इनमें से कोई नहीं

Q10. निम्नलिखित में से कौन S के ठीक दाएं स्थान पर बैठा है?

- (a) P
- (b) U
- (c) T
- (d) V
- (e) इनमें से कोई नहीं

Directions (11-15): निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए.

आठ व्यक्ति J, K, L, M, N, O, P और Q एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। उनमें से प्रत्येक विभिन्न रंग अर्थात् नीला, काला, संतरी, पीला, हरा, गुलाबी, सफ़ेद और ग्रे पसंद करते हैं। वे सभी केंद्र की ओर उन्मुख हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सभी जानकारी समान क्रम में हों।

काला रंग पसंद करने वाला व्यक्ति M के विपरीत बैठा है, M जो K के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। नीला रंग पसंद करने वाला व्यक्ति, ग्रे रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के विपरीत बैठा है। हरा रंग पसंद करने वाला व्यक्ति, पीला और सफ़ेद रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों का निकटतम पड़ोसी है। P, N के ठीक दाएं बैठा है। न तो P और न ही N काले रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी है। J को संतरी रंग पसंद है और N के बाईं ओर से गिने जाने पर J और N के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं। M को सफ़ेद, पीला और गुलाबी रंग पसंद नहीं है। K और पीला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के मध्य एक व्यक्ति बैठा है। Q, O के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। L को नीला रंग पसंद नहीं है।

Q11. निम्नलिखित में से कौन N के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है?

- (a) Q
- (b) ग्रे रंग पसंद करने वाला व्यक्ति
- (c) L
- (d) हरा रंग पसंद करने वाला व्यक्ति
- (e) इनमें से कोई नहीं

Q12. निम्नलिखित में से कौन गुलाबी रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के विपरीत स्थान पर बैठा है?

- (a) J
- (b) K
- (c) O
- (d) Q
- (e) इनमें से कोई नहीं

Q13. निम्नलिखित में से कौन Q की ओर उन्मुख है?

- (a) K
- (b) J
- (c) M
- (d) P
- (e) O

Q14. L के संदर्भ में, जब घड़ी की सुई की दिशा में गिना जाता है, तो L और K के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं?

- (a) एक
- (b) तीन
- (c) एक
- (d) दो
- (e) कोई नहीं

Q15. यदि O नीला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति से संबंधित है और K पीला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति से संबंधित है, तो P निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है?

- (a) काला रंग पसंद करने वाला व्यक्ति
- (b) ग्रे रंग पसंद करने वाला व्यक्ति
- (c) हरा रंग पसंद करने वाला व्यक्ति
- (d) सफ़ेद रंग पसंद करने वाला व्यक्ति
- (e) इनमें से कोई नहीं

TEST SERIES

Bilingual

Video Solutions

**SBI CLERK
MAINS**

25+ TOTAL TESTS | eBooks

BOOKS



Visit: publications.adda247.com & store.adda247.com
 For any information, mail us at publications@adda247.com